



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 1977 वैशाख 15, 1899

No. [187]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 1977/VAISAKHA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May 1977

S.O. 317(E).—Whereas as a result of the review undertaken in terms of paragraph 6 read with paragraph 7 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, with reference to the general election to the House of the People held in 1977, the Election Commission is satisfied that certain political parties have fulfilled the conditions for recognition as State parties in States in which they had set up candidates at the said general election,

And whereas in view of the impending general election to the Legislative Assemblies of a number of States, it has become necessary for the Commission to accord recognition urgently to these parties;

Now, therefore, in pursuance of clauses (a), (b) and (d) of sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Commission hereby makes the following amendments to its notification No 56/77-2, dated 9 February 1977 published as S.O. 152(E) in the Gazette of India,

Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 9 February 1977 as amended from time to time.—

(I) In Table 2 of the said Notification—

(a) against the State of Tamil Nadu, the existing entry in column 2 shall be numbered as item No 1 and the following entries shall be added in columns 2 and 3 —

“2. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Two leaves”, and

(b) After the State of Tamil Nadu, the following shall be added.—

“West Bengal Revolutionary Socialist Party Spade and Stoker.”

(II) In Table 3 of the said notification—

(a) against item No 19, Tamil Nadu, for the entries, “(9) Sparrow, (10) Swastik within a circle and (11) Two leaves”, the entries (9) Sparrow, and (10) Swastik within a circle” shall be substituted; and

(b) against item No 22, West Bengal, for the entries “(24) Spade and Stoker, (25) Swastik within a circle, (26) Tractor and (27) Two leaves”, the entries “(24) Swastik within a circle, (25) Tractor and (26) Two leaves” shall be substituted

[No 56/77-VII]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 1977

का० आ० 317(अ).—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 7 के साथ पठित पैरा 6 के अधीन, सन् 1977 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के प्रति निर्देशन से, किए गए पुनर्गवलोकन के परिणामस्वरूप निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि कतिपय राजनीतिक दलों ने उन राज्यों में, जिनमें उन्होंने उक्त साधारण निर्वाचन में अपने अभ्यर्थी खड़े किए थे, राज्यीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शत पूरी कर ली है ;

और, कतिपय राज्यों की विधान सभाओं के लिए आमन्न साधारण निर्वाचन की दृष्टि से इन दलों को अविलम्ब मान्यता प्रदान करना निर्वाचन आयोग के लिए आवश्यक हो गया है ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप पैरा (1) के खंड (क), (ख) और (घ) तथा उप-पैरा (2) के अनुसरण से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii), तारीख 9 फरवरी, 1977 में का० आ० 152(अ) के रूप में प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा सशोधित अपनी अधिसूचना सं० 56, 77-2, तारीख 9 फरवरी, 1977 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :—

(I) उक्त अधिसूचना की सारणी 2 में—

(क) तमिलनाडु राज्य के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टि को मद सं० 1 के रूप में सहायकित कर दिया जाएगा, और स्तम्भ 2 तथा 3 में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जाएगी.—

“2. अखिल भारतीय अन्नाद्रविड मुन्नेत्र कड़गम दो पत्नियां”, तथा

(ख) तमिलनाडु राज्य के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

“पश्चिम बंगाल रिबोन्सूशनरी सोशलिस्ट पार्टी कावड़ा और बेलचा”।

(II) उक्त अधिसूचना की सारणी 3 में—

(क) मद सं० 19 तमिलनाडु के सामने “ (9) गोरैया, (10) वृत्त के भीतर स्वस्तिक तथा (ii) दो पत्तियाँ ” प्रविष्टियों के स्थान पर “ (9) गोरैया तथा (10) वृत्त के भीतर स्वस्तिक । ” प्रविष्टियाँ रखी जाएगी ; तथा

(ख) मद सं० 22 पश्चिमी बंगाल के सामने “ (24) कावड़ा और बेलचा, (25) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (26) ट्रैक्टर, तथा (27) दो पत्तियाँ ” प्रविष्टियों के स्थान पर “ (24) वृत्त के भीतर स्वस्तिक, (25) ट्रैक्टर, तथा (26) दो पत्तियाँ । ” प्रविष्टियाँ रखी जाएगी ।

[सं० 56, 77-VII]

आदेश से,

वी० नागमुन्नमण्यन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निष्पन्नक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DPLHI, 1977

